

Paul Merchants

Paul Merchants Limited

An ISO 9001 : 2015 Certified Company CIN : L74900DL1984PLC018679
Corp. Office. : PML House, SCO 829-830, Sector 22-A, Chandigarh-160022
Ph. 0172-5041740, 5041757, 5041792 Fax : 0172-5041713

Regd. Office: DSM 335, 336, 337, 3rd Floor, DLF Tower, 15, Shivaji Marg,
Najafgarh Road, New Delhi-110015 Ph.: 011-47529460
www.paulmerchants.net info@paulmerchants.net

Corporate Relations Department, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001. PML/BSE/CS/2023/188 Date: December 2, 2023

SUB: PUBLICATION OF NOTICE OF RECORD DATE FOR BONUS SHARES

Ref: Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations)

Date & Time of occurrence of the event/information: - Notice published in the Newspapers "The Financial Express" (All editions) and "Jansatta" (Delhi edition) on December 2, 2023. This being a Publication, time is not applicable.

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed herewith the copy of the Newspapers ("The Financial Express" (All editions) and "Jansatta" (Delhi edition)) in which the notice of record date has been published by the Company, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations).

Further, the details as per Regulation 30 of the Listing Regulations read over with Para A (12) of Part A of Schedule III of Listing Regulations and Para A (12) of Annexure I to SEBI circular no. CIR/CFD/CMD/4/2015 dated 09.09.2015, SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and Para A (12) of Annexure I of SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2023/123 dated July 13, 2023, to the extent applicable to the matter are as under:-

- (a) Date of Notice: The Public Notice has been published in the Newspapers "The Financial Express" (All editions) and "Jansatta" (Delhi edition) on December 2, 2023.
- (b) Brief details viz. agenda (if any) proposed to be taken up, resolution to be passed, manner of approval proposed etc.:- This is a Public Notice containing the contents in pursuance to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read over with applicable provisions of the Companies Act, 2013. As such the details about Agenda, Resolutions to be



Paul Merchants

Paul Merchants Limited

An ISO 9001: 2015 Certified Company CIN: L74900DL1984PLC018679

Corp. Office.: PML House, SCO 829-830, Sector 22-A, Chandigarh-160022
Ph. 0172-5041740, 5041757, 5041792 Fax: 0172-5041713

Regd. Office: DSM 335, 336, 337, 3rd Floor, DLF Tower, 15, Shivaji Marg,
Najafgarh Road, New Delhi-110015 Ph.: 011-47529460

www.paulmerchants.net info@paulmerchants.net

passed and manner of approval proposed are not applicable. Further, the contents of the enclosed copy of Notice of Record date for Bonus Shares may be read as a part of this disclosure.

You are requested to kindly take the same on your records.

Yours faithfully,

For PAUL MERCHANTS LIMITED,

(HARDAM SINGH)
COMPANY SECRETARY CUM COMPLIANCE OFFICER
FCS-5046

Encl: Copy of the Newspapers

Oil imports rise in Nov on high demand

SUKALP SHARMA New Delhi, December 1

INDIA'S CRUDE OIL imports in November rose sequentially as the country moved to a period of high petroleum consumption, with the festival season and the end to the autumn refinery maintenance season, preliminary estimates of ship tracking data showed.

Amid robust import volumes from top supplier Russia, India's Iragi oil imports surged by nearly 25% sequentially in November. Oil imports from Saudi Arabia, on the other hand, declined by around a

According to ship tracking data provided by energy intelligence and analytics firms Kpler and Vortexa, India imported 4.5 million barrels per day (million bpd) of crude

India is the world's

third-largest

consumer of crude

imports to meet

over 85% of its

requirement

ADDITIONAL INFORMATION (SAI) OF PPFAS MUTUAL FUND

Address*

November, around 3% more than the volumes imported in October.

oil and depends on India is the thirdworld's largest consumer of crude oil and depends imports to meet over 85% of its requirement.

The country has a refining capacity of a little over 5 million bpd. Oil imports from Iraq in November are pegged at around 1 million bpd, up from around 0.8 million bpd in October. Iraq is currently of crude oil, behind Russia.

Prior to the war in Ukraine, Iraq was at the top of the table

Addition to the List of Branches/ISCs


Name of the Branch

from time to time.

Place: Mumbai

Date: December 01, 2023

Chandigarh



of India's sources of crude oil, but was dethroned by Russia as Indian refiners started lapping up Russian oil when Moscow began offering it at a discount to inter-

national prices. While most of Russian oil bought by Indian refiners is purchased on spot basis, India

mainly relies on West Asian oil suppliers like Iraq and Saudi Arabia for most of its term volumes.

Between the two oil heavyweights, Indian refiners have been preferring Iraq, as its oil has been relatively cheaper than Riyadh's.

In November, Indian refiners imported a total of around India's second-largest supplier 0.7 million bpd of oil from Saudi Arabia, down over 20% from October. Saudi Arabia remains New Delhi's third-

PPFAS Mutual Fund

PPFAS Asset Management Private Limited

(Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)

Registered Office: - 81/82, 8th Floor, Sakhar Bhavan, Ramnath Goenka Marg,

230 Nariman Point, Mumbai - 400 021, Maharashtra, INDIA. Tel.: 91 22 6140 6555 Fax: 91 22 6140 6590.

E-mail: mf@ppfas.com. Website: www.amc.ppfas.com CIN No: - U65100MH2011PTC220623

NOTICE CUM ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT (SID) AND KEY INFORMATION

MEMORANDUM (KIM) OF ALL EXISTING SCHEMES OF PPFAS MUTUAL FUND AND STATEMENT OF

Investors/ Unitholders are requested to note that with a view to increase the network and enhance the service

levels for investors, PPFAS Mutual Fund ("PPFAS MF") hereby declares the launch of the following new branch

*This branch is not an Official Point of Acceptance of Transactions ("OPAT") for the Schemes of PPFAS Mutual Fund.

Document and Key Information Memorandum issued for respective schemes, read with the addenda issued

SCO 2475-76, 2nd Floor, Sector 22-C, Chandigarh - 160022, India.

office. This branch will be termed as "Investor Service Center (ISC)", with effect from December 02, 2023.

PPFAS Asset Management Private Limited

This addendum forms an integral part of the Statement of Additional Information, Scheme Information

biggest supplier of crude oil. "Iraq is cheaper than Saudi Arabia, hence India maintains stable levels of Iraqi crudes but has cut down on Saudi imports," Kpler's lead crude analysts Viktor Katona said.

As for India's Russian oil import volumes in November, Kpler's estimate stands at around 1.7 million bpd, while Vortexa pegs the volume at around 1.5 million bpd.

In October, oil imports from Russia were around 1.6 million bpd. Preliminary volume estimates based on cargo data recorded by different agencies can vary slightly depending on the methodology employed.

Notwithstanding the slight difference in volume estimates, analysts at both firms said that Indian refiners seem unwilling to cut down on Russian oil imports, even as discounts offered by Moscow's oil firms have eroded in recent months.

India to import oil from Venezuela after three years

SUKALP SHARMA New Delhi, December 1

WITH THE United States (US) sanctions easing Venezuela, India's crude oil imports from Caracas are set to resume after three years with private sector giant Reliance Industries Ltd (RIL) booking three tankers scheduled to load oil from the Latin American country in December and January 2024, as per shipping fixtures shared by trade sources.

Private sector refiners RIL and Nayara Energy (NEL) were regular buyers of Venezuelan crude prior to imposition of US sanctions on Caracas in 2019. Following the sanctions, oil imports from Venezuela stopped.

According to data from commodity market analytics firm Kpler, India last imported Venezuelan crude in November 2020. Venezuela was New Delhi's fifth-largest supplier of oil in 2019, providing close to 16 million tonnes of crude to Indian refiners, as per India's official trade data.

In October this year, Washington eased sanctions on Venezuela's oil sector, authorising oil exports without limitation for six months. Venezuela, a member of the Organisation of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) has the largest proven oil reserves in the world.

It has reportedly been offering steep discounts to Chinese independent refiners, who have been its biggest buyers of oil through the sanctions. However, recent reports suggest the discounts have narrowed considerably in recent weeks due to the easing of sanctions and other buyers now willing to pick up Venezuelan oil. Caracas appears eager to sell its crude in other major markets and is likely offering discounts to willing buyers.

Shipping fixtures show



that three super tankers, each capable of carrying up to 270,000 tonnes of crude oil, have been chartered by RIL. Two are scheduled to be loaded over the next week, while one is scheduled for early January. In shipping industry parlance, a "fixture" indicates that the charter of a ship has been finalised. An RIL spokesperson did not respond to a request seeking comment on the matter.

In November, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri told reporters that India would be willing to buy Venezuelan oil if it was available at a discount. India is the world's third-largest consumer of crude oil and depends on imports to meet over 85 per cent of its requirement.

Given the volatility in the oil markets over the past nearly two years, the government has maintained that India will buy from wherever it can get cheaper oil. Irking many in the West, New Delhi significantly ramped up Russian crude imports as Moscow offered deep discounts after its February 2022 invasion of Ukraine.

Industry watchers believe that with India resuming oil imports from Venezuela, imports by Chinese refiners could be adversely impacted.

FROM THE FRONT PAGE

GDP data, FII return spur Nifty to new high

FIIs bought a net \$2.3 billion in Indian equities in November, after selling a net \$5 billion in September and October. DIIs bought a net ₹14,254 crore during November.

"The broader market outperformed, with mid- and displaying small-caps resilience and no signs of fatigue. Investors remain optimistic about government spending and heightened consumption, driven by easing inflation, propelling growth in H2FY24. Oil prices continued to move on the downside despite the Opec+ supply cut. The eagerly awaited exit polls also contributed positively, boosting investor sentiments towards the current Union government," said Vinod Nair, Head of Research at Geojit Financial Services.

A total of 2,109 stocks advanced on the BSE, while 1,638 declined. All BSE sectoral indices except auto closed in the green, while telecommunication closed flat. Oil & Gas, power, and energy were the biggest weekly gainers, rising over 5% each. Among broader indices,

the BSE midcap and smallcap also rose 0.96% and 0.86% to close at 34,587 and 40,566, respectively.

The market cap of BSElisted firms rose ₹2.07 trillion to ₹337.7 trillion.

Rate cut likely only after LS polls ACCORDING TO DATA

from the Centre, India's Q2FY24 gross domestic product (GDP) beat all estimates — including that of RBI's 6.5% forecast — by a wide margin to grow at 7.6% in real terms, led by growth in manufacturing and investment segments.

Gupta said HDFC Bank expects full year GDP to grow 6.8% as against RBI's forecast of 6.5%. She added that while the inflation print in October was below 5%, inflation figures of November and December will be higher as includes potatoes, onions and tomatoes, have started rising in November, primarily led by rise in onion prices. Further,

HUL splits beauty and personal care business

HE TOO WILL be part of HUL's management committee. The company also said that it was appointing former revenue secretary Tarun Bajaj as an independent director. The management struc-

ture that HUL is putting in place, said sector analysts, would mirror that of parent Unilever, which too has beauty&well-being and personal care, as separate divisions.Unilever has also identified digital as a key pillar of its business, with digital commerce contributing 15% of its total revenue, the company said in a recent earnings call.

"Beauty and personal care continues to be a source of value creation for us. However, the business model, innovation rhythm and competitive landscape for both, B&W and PC, are diverging,"CEO and managing director Rohit Jawa said on Friday.



leverage our strong portfolio in both businesses," Jawa

skin care head, joined HULin 2006.Between 2015-16,she led the TRESemmé business as global brand director, based out of London.

Chandrasekhar, who joined HUL as a management trainee in 1998, is currently global vice-president and head of oral care and skin cleansing for develop-He has worked across Asia, Southeast Asia, Africa,

India offers to host COP meet in 2028

WHILE RECALLING THE global climate initiatives India had launched – International Solar Alliance, Coalition of Dis aster-Resilient Infrastructure and Lifestyle for Environment Campaign – and climaterelated decisions like renewable energy tripling and Global Biofuels Alliance taken by the G20 summit under its presidency, Modi made another offering to the world.

He said India's recently launched Green Credits Initiative is something that the entire world should adopt. The programme launched by the environment ministry is a way of incentivising environmental actions by offering green credits for projects that help the environment in any way. In its first round, activities in water conservation and afforestation would be acknowledged.

Modi participated in a separate programme at the COP28 meeting, focused on this Green Credits Initiative.

ket-based mechanism that prioritises public participation in environment positive projects. It is a pro planet, proactive and positive initiative," Modi said.

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

Velliyamattom (part) panchayath-Part II Package II-Supply and laying Raw Water Pumping Mair Clear Water Pumping Main and construction of GLSRs in various zones in Arakulam panchayath General Civil Work. EMD: Rs. 1,00,000/- & 5,00,000/- Tender fee: Rs. 8270/- & 16540/-Last Date for submitting Tender: 12-12-2023 04:00:pm Phone: 04852835637

Superintending Enginee PH Circle

KWA-JB-GL-6-1743-2023-24

"POT" inflation, which ers' intentions or preferred

ket participants are expected to seek clarity on policymaktiming of open market operation (OMO) bond sales, along with related commentary on liquidity conditions.

"This is an alternative mar-

On behalf of Board of Director

Mr.Kanji Rita

Chairman and MD

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS. READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

NATIONAL TEXTILE CORPORATION LIMITED, (WRO), MUMBAI

NTC House, 15 N. M. Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001

Tel.: +91 22 22686600 Fax: +91 22 22686631 Website: www.ntcltd.org

TENDER NOTICE FOR SALE OF

TRANSFERABLE DEVELOPMENT RIGHTS (TDR)

NTC invites e-tender cum e-auction through MSTC under

two bids system from reputed bidders for "SALE OF TDR."

Interested bidders may please visit website for detail

tender document - https://www.mstcecommerce.com or

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR CINEMA VENTURES PRIVATE LIMITED

OPERATING IN EXHIBITION OF CINEMAS AT MUMBAI, MAHARASHTRA

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process

for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

www.ntcltd.org & https://eprocure.gov.in

Name of the corporate debtor along

with PAN/ CIN/ LLP No.

3. URL of website

Services

assets are located

Address of the registered office

Details of place where majority of fixed

Installed capacity of main products/

Quantity and value of main products/

Number of employees/ workmen

Further details including last available

financial statements (with schedules) of

two years, lists of creditors, relevant dates

for subsequent events of the process are

Date of issue of provisional list of

prospective resolution applicants

13. Date of issue of final list of prospective

14. Date of issue of information memorandum,

15. Last date for submission of resolution plans

16. Process email id to submit Expression

evaluation matrix and request for resolution

plans to prospective resolution applicants

provisional list

Date: 02.12.2023

Place: Gurgaon

resolution applicants

10. Last date for receipt of expression of interest 18th December 2023

12. Last date for submission of objections to 26th December 2023

services sold in last financial year



For PPFAS Asset Management Private Limited

(Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)

Chief General Manager

(Task Force)

CIN - U71420MH2012PTC232410

Western Express Highway, Dindoshi, Malad East, Mumbai-400097, India

cirp.cinemaventures@gmail.com

Around 150 screens

21st December 2023

29th December 2023

31st January 2024

cirp.cinemaventures@gmail.com

Eligibility for resolution applicants under | Available at https://rbsa.in/ibc-cases/ or through

section 25(2)(h) of the Code is available at: e-mail at cirp.cinemaventures@gmail.com

Carnival House, Gen A K Vaidya Marg, Off

www.carnivalcinemas.com (Not working)

The Company is into the business of Exhibition of

Cinema which operated from different locations i

different states including but not limited to Punjab

Haryana, Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu

Andhra Pradesh, Guiarat, Karnataka, Raiasthar

Telangana, Chhattisgarh etc. The assets are

installed at these Cinema sites. Complete details

shall be made available through e-mail a

Non-operational during the last Financial Year

Available at https://rbsa.in/ibc-cases/ or through

e-mail at cirp.cinemaventures@gmail.com

PAN AAFCR9542Q



Director

Website: www.kwa.kerala.gov.in www.etenders.kerala.gov.in

(This is a public announcement for information purpose only and not an offer document and not for publication or distribution. directly or indirectly outside India.) INVENTURE

Inventure Growth and Securities Limited was originally incorporated on June 22, 1995, as a Public limited company, under the name and style 'Inventure Growth and Securities Limited' under the provisions of the Companies Act, 1956, with the Registrar of Companies, Mumbai. We received Certificate of Commencemen of Business dated June 22, 1995 issued by the Registrar of Companies, Mumbai. The Company made a maiden public offer of its Equity Capital in July 2011 The Equity capital of the Company is listed on BSE and NSE in India

GROWTH & SECURITIES LTD **INVENTURE GROWTH AND SECURITIES LIMITED**

Registered Office: 201, 2nd Floor, Viraj Tower, Near Landmark, Western Express Highway, Andheri - East, Mumbai - 400069, Maharashtra, India Tel: +91 - 22-71148500/600; Website: www.inventuregrowth.com; E-mail: cs@inventuregrowth.com

Contact Person: Ms. Shikha Ashok Mishra, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. KANJI BACHUBHAI RITA ISSUE OF UP TO [•]/- EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF RS. 1/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF RS. [•]/- PER RIGHTS

EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF RS. [●] PER RIGHTS EQUITY SHARE) FOR AN AMOUNT AGGREGATING UPTO RS. 4,900.00 LAKHS ON RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF RS. [●] RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY RS. [●] FULLY PAID UP EQUITY SHARES) HELD BY THE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. RS. [●]. THE ISSUE PRICE IS RS. [●] TIMES OF THE FACE VALUE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES. This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 72(2) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capita and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended (the "SEBI ICDR Regulations") to state that Inventure Growth and Securities Limited i proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, an issue of equity shares to its equity shareholders on rights basis and has filed the Draft Letter of Offer ("DLOF") dated November 30, 2023 with the BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE or November 30, 2023. Since the size of the Issue is less than 5000 Lakhs, as per the SEBI (ICDR) Regulations, the DLOF has not been filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") nor shall SEBI issue any observation on the DLOF.

Pursuant to the Regulation 72(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DLOF filed with BSE and NSE is open for public comments, if any. The DLOF is hosted on the website of Company, website of the recognised stock exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com, website of the Company i.e. at https://www.inventuregrowth.com/. All member of the public are hereby invited to provide their comments on the DLOF to BSE or NSE with respect to the Disclosure made in the DLOF. The public is requested to send a copy of the comments to BSE and NSE and the company at their respective address mention herein. All the comments must be received by the Company on or before 05.00 p.m. by December 23, 2023. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in any other jurisdiction. Please note the distribution of the DLOF and

issue of equity shares on rights basis to person in certain jurisdictions outside India may be restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions Accordingly, any person who acquires Rights entitlement or Rights Equity shares will be deemed to have declared, warranted and agreed that at the time of subscribing for the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, such person is not and will not be in the United States and/or in the restricted jurisdictions. The Rights Equity Shares of the Company have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in any other jurisdiction which have any restrictions in connection with offering, issuing and allotting Rights Equity Shares within its jurisdictions, and/or to its citizens. The offering to which the DLOF relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or any other jurisdiction other than India or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares

Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, Investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Rights Equity Shares have not been recommended or approved by SEBI nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this DLOF. Investors are advised to refer to the "Risk Factors" beginning on page 18 of the DLOF before making an investment in the issue. NOTE: All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DLOF

Registrar to the Issue	Company Secretary and Compliance Officer	Legal Advisor to issue		
Link Intime India Private Limited	Shikha Ashok Mishra	M/s. Amruta Giradkar Associates		
C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli	201, 2nd Floor, Viraj Tower, Near Landmark,	Office No. 820, 8th Floor, Ecstasy Business Park,		
(West), Mumbai - 400083, Maharashtra, India.	Western Express Highway, Andheri - East,	JSD, Mulund West, Mumbai, Maharashtra		
Tel No: + 91 810 811 4949	Mumbai - 400069, India	400080		
Email: inventure.rights2023@linkintime.co.in	E-mail: cs@inventuregrowth.com	Membership Number: 19381		
Website: www.linkintime.co.in	Tel: +91 - 22-71148500/600	Contact Person: Amruta Giradkar		
SEBI Registration Number: INR000004058	Website: www.inventuregrowth.com	Contact Number: 9892981184		
Contact Person: Shanti Gopalkrishnan	Member are advised to contact the company	E-mail Id: amruta@csamrutagiradkar.com		
	Secretary and Compliance officer or Registrar to the			
	issue for any pre-issue or post issue related problem.			
Date: November 30, 2023 For Inventure Growth & Securities Limite				

for PAUL MERCHANTS LIMITED HARDAM SINGH (COMPANY SECRETARY) Place: Chandigarh Membership No. FCS-5046 Date: December 2, 2023 12-D, Angel Apartments, Zirakpur (Pb)-140603 Reliance Industries Limited Regd.office: 3rd Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Phone: 022-3555 5000. Email: investor.relations@ril.com CIN: L17110MH1973PLC019786 NOTICE NOTICE is hereby given that the following certificate(s) issued by the Company are stated to have been lost or misplaced and Registered Holders thereof have applied for the issue of duplicate certificate(s). Distinctive Nos. Sr. Folio No. Name / Joint Names | Shares | Certificate Nos. From - To No. From - To 31748011 Parween Kausar 136 53933509-512 1266573859-994 2210166277-412 Omar Ahmad Farhan 136 62493773-773 6884265373-644 272 66756666-666 31284112 Pradeep Sharma 4003570-570 63280699-718 7240442-443 145101468-476 180803960-969 10 10016737-737 39 53255116-117 1246854777-815 156 66409707-707 6853480410-565 Total The Public is hereby warned against purchasing or dealing with these securities any way. Any person(s) who has / have any claim in regard of the securities, should lodge such claim with the Company's Registrar and Transfer Agent viz. "KFin Technologies Limited", Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, within Seven (7) days from the date of publication of this notice,

Paul Merchants Ltd.

Ph.0172-5041786, Fax: 0172-5041713

CORP. OFF.: SCO 829-830, Sector 22A, Chandigarh-160022

E-mail: info@paulmerchants.net Website: www.paulmerchants.net

REGD. OFF.: DSM 335, 336, 337, 3rd Floor, DLF Tower, 15, Shivaji Marg, Najafgarh Road, New Delhi-110015. Ph: 011 47529460

NOTICE OF RECORD DATE FOR BONUS SHARES

Notice is hereby given pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read over with applicable

provisions of the Companies Act, 2013 that the Company has fixed Monday.

December 18, 2023 as Record Date for the purpose of ascertaining the eligibility of

equity shareholders entitled for allotment of Bonus Shares of the Company in ratio

of 2:1, i.e. 2 (Two) equity shares of Rs. 10/- each for every 1 (one) existing equity

The said Notice is also available on the website of the Company at

https://www.paulmerchants.net/paulmerchants/wp-content/uploads/2023/

By order of the Board of Directors

12/Notice-of-Record-date-for-Bonus-Share.pdf

failing which, the Company will proceed to issue letter(s) of confirmation in lieu of duplicate certificate(s) in respect of the aforesaid securities.

for Reliance Industries Limited Place: Mumbai Savithri Parekh Company Secretary and Compliance Officer

financialem epar.in

ASHOK KUMAR GULLA Resolution Professional, Cinema Ventures Private Limiter Regn. No: IBBI/IPA-003/IP-N00024/2017-18/10174 AFA Valid up to: 31st Oct 2024 RBSA Restructuring Advisors LLP, DLF Corporate Park, 4th Floor, Tower 4B, Gurgaon, Haryana- 12200

Date: December 1, 2023

Date: November 30, 2023 Place : Mumbai

New Delhi

"The transition will allow us to bring more focus, and

cereals and pulses inflation momentum in October also remained very strong. Gaura Sengupta, India economist at IDFC First Bank

shared similar views, saying while the bank does not expect the RBI to revise their FY24 CPI inflation estimate of 5.4%, risks from food inflation persist. "Daily food prices show continued upward pressure with more than 50% of the food basket by weight seeing 6% y-o-y or higher inflation, spread-over cereals, pulses, fruits, milk etc," she said. "Moreover, in November

vegetable prices have risen once again led by onions. CPI inflation is expected to remain above 5% till Q1FY25, which is higher than 4%-target," she added. India's headline retail inflation, as measured by the Consumer Price Index fell to a 4-month low of 4.87% in October. DBS Bank executive direc-

tor and senior economist Radhika Rao said while she does not anticipate any surprise non-policy tweaks, mar-

Dhillon, currently India

ing and emerging markets. Unilever businesses in South and the Middle East.

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

दूसरा तल, जीएमटीटी भवन डी-7 सैक्टर 3 नोएडा उ.प्र. 201301

ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार द्वारा बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधाएं की प्रधान राशि और ब्याज की पुनः अदायगी में चूक की है तथा कथित सुविधाओं को नीचे वर्णित प्रत्येक खाते के अंतर्गत नॉन-परफॉर्मिंग असैट्स के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत कर्जदार/गारंटरों को उनके अंतिम ज्ञात पतों पर नोटिस जारी किए थे, तथापि नोटिस अवितरित वापिस आ गए है और प्राधिकृत अधिकारी को विश्वास का कारण है कि कर्जदार/गारंटर नोटिस की सेवाओं से बच रहे है, इसलिए उन्हें इस नोटिस के बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है।

सावजानक प्रकाशन के माध्यम स ।वत्ताय सपात्तया के प्रातभूातकरण एवं पुनः ।नमाण तथा प्रातभूात

ı					
	शाखा और कर्जदार	प्रतिभूतित परिसंपत्तियों	डिमांड नोटिस	एनपीए	डिमांड नोटिस के
	∕गारंटर के नाम	का विवरण	की तिथि	की तिथि	अनुसार बकाया
١	शाखाः सेक्टर 18 नोएडा	गांव साहिबाबाद, परगना, लोनी, जिला	12.06.2023	10.04.2022	18,81,007.06 ক. ড
ı	1. पंकज सिंह पुत्र गंगा राम सिंह, मकान नंबर	गाजियाबाद, यूपी में स्थित खसरा नं 429 में से	12.00.2023	10.04.2023	12.06.2023 को देय है जमा 13.06.2023 से
ı	640, पसौंडा, साहिबाबाद गाजियाबाद, उत्तर	58.52 वर्ग मीटर वाले संपत्ति धारक मकान नं	475 के ऊपर निर्मित f	रेहायशी संपत्ति के	अनुबंधीय दर पर ब्याज
ı	प्रदेश-201005, 2. निशू रानी पत्नी पंकज सिंह,	सभी अनिवार्य अंग। जिसकी सीमांए नीचे अनु	सार है, सीमाबद्धः पूर्व	: अन्य का प्लॉट,	अन्य प्रभार।
ı	मकान नंबर 640, पसौंडा, साहिबाबाद	। पश्चिमः गली, उत्तरः चौधरी की संपत्ति, दक्षिणः	वासदेव की संपत्ति। नि	ाश रानी पत्नी पं	 कज सिंह से संबंधित संप
1	गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005 , यहां भीः	अर्थात आप सब में सं. 2 पर है। रेहन दिनांक	•	•	
ı	मकार रंबर ८८० शासीमार मार्टर माहिनाबाट	I			

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005। आवास ऋण (खाता संख्या 2203210170000007)

उपरोक्त कर्जदारों/गारंटरों को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंदर नोटिस में वर्णित राशि अदा करने की सलाह दी जाती है जिसमें असफल होने पर नोटिस की तिथि से 60 दिन बाद वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण व पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा कर्जदारों/गारंटरों को किसी तरीके से, जो कुछ भी हो, के माध्यम से बिना बैक की सहमति के बिना उपरोक्त वर्णित प्रतिभृतित परिसंपत्तियों के साथ लेन देन करने से एतद्द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। यह सूचना बैंक को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना है और अधिनियम तथा/या अन्य प्रभावी कानन के अधीन है।

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.

CIN: U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

सभी संबंधित व्यक्तियों की सूचना के लिए एतदुद्वारा सूचना दी जाती है कि 31.12.2022 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL

and all other 6 months tenure Gold loans up to 31.03.2023 and MSGB, SME Suvarna & EMI due up to 30.09.2023 तक की अवधि के लिए कम्पनी

की नीचे कथित शाखाओं में गिरवी रखे सोने के गहनें जिन्हें छुड़ाने का समय बीत चुका है तथा जिन्हें बार-बार सूचना दिए जाने पर भी अब तक छुड़ाए

नीलामी अपनी – अपनी शाखाओं पर आयोजित की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि यदि नीलामी किसी कारजवश उसी दिन पूरी न हो पाई तो नीलामी 27.12.2023 को सुबह

10.00 적**ਰ MANGAL NAGAR-SUKHLIA:** Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Survey No:585/3, Main Road, Opposite ICICI Bank, Sukhliva, Indore, Madhya

Pradesh - 452010, KHANDWA-SHIVAJI CHOWK: Muthoot FinCorp Ltd., First Floor, Central Bank, Shivaji Chowk, Above Central Bank, Khandwa, Madhya

Pradesh - 450001, DEWAS-AB ROAD: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Plot No-6, Ram Nagar, A.B. Road, Near Shreeji Sweets, Dewas, Madhya

Pradesh - 455001. पर आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे कोटो पहचान-पत्र, PAN कार्ड प्रस्तुत करें। सफल निविदाकर्ताओंको पैसा RTGS द्वारा

सोने की नीलामी सूचना

स्थानः नोएडा (उत्तर प्रदेश)

MUTHOOT FINCORP LTD.

KHANDWA-SHIVAJI CHOWK: F6976, F7010, F7688, F7835, F7877, F7878, F7891, F7900, F7903, F7930, F7936, F8013, F8060

खाता संख्या तथा कर्जदार,

नहीं गया है उनकी नीलामी 14.12.2023 को 10.00 बजे से शुरू कर दी जाएगी।

इंडियन बैंक

पर भी उपलब्ध है।

स्थानः चंडीगढ

तिथि: 2 दिसंबर, 2023

वेबसाइट www.paulmerchants.net

पंजी. कार्या.: डीएसएम 335, 336, 337, 3रा तल, डीएलएफ टावर, 15, शिवाजी मार्ग,

नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015, फोन: 011-47529460

बोनस शेयरों के लिए रिकॉर्ड तिथि की सुचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागु प्रावधानों के साथ पढ़े गए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण

आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार नोटिस दिया गया है कि कंपनी ने 2:1 के

अनुपात में यानी 10/- रुपये के प्रत्येक 1 (एक) मौजूदा इक्विटी शेयर के लिए प्रत्येक 10/- रु. के

(दो) इक्विटी शेयर के कंपनी के बोनस शेयरों के आवंटन के लिए पात्र इक्विटी शेयरधारकों की पात्रता

सनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार, 18 दिसंबर, 2023 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में तय किया है।

कथित सूचना कंपनी के वबसाईट https://www.paulmerchants.net/paulmerchants

wp-content/uploads/2023/12/Notice-of-Record-date-for-Bonus-Share.pdf

Indian Bank

ALLAHABAD

(कंपनी सचिव) सदस्यता सं. एफसीएस-5046

12-डी, एंजल अपार्टमेंट, जीरकपुर (पंजाब)-140603

निदेशकों के बोर्ड के आदेशानुसार

कृते पॉल मर्चेंट्स लिमिटेड

हरदम सिंह

● 老碗里 7738152035/7566507016, ● 韓田:andheri@indianbank.co.in

कब्जा सूचना (अंचल सम्पत्ति के लिये) [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम-8 (1) के अंतर्गत]

जैसा कि. वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम् 2002 के अंतर्गत इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 29.8.2023 जारी कर ऋणधारकों श्री अंशुल आहुजा, पुत्र श्री सुनील आहजा एवं मैं. व्हाइट रोज क्रिएशन्स (प्रॉपाईटर श्री अंशुल आहजा) को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 3,17,08,693/- (रु. तीन करोड़ सत्तरह लाख आठ हजार छः सौ तिडानवे मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदहारा ऋणधारक तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 28 नवम्बर, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम s के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित

सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रू. 3,17,08,693/-(क. तीन करोड़ सत्तरह लाख आठ हजार छः सौ तिड़ानवे मात्र) तथा मांग सुचना की तिथि से उस पर ब्याज तथा अन्य चार्जेज के लिये इंडियन बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। अचल सम्पत्ति का विवरण

थ्री अंशुल आहुजा के स्वामित्व में वार्ड नं. 7, रेलवे रोड के पीछे, देवीलाल कॉम्प्लैंक्स लेन, पानीपत, हरियाणा-132103 में स्थित शॉप/सम्पत्ति माप 162 वर्ग याईस जो शॉप/सम्पत्ति सं. 1133-1135, माप 647 वर्ग याईस का १६२/६४७ शेयर है जिसकी चौहदी: उत्तर: किशन पम्प स्टोर की सम्पत्ति, 🌘 दक्षिण: रोड, 🏚 पूर्व: कस्तुरी लाल

को सम्पत्ति आदि 🎳 पश्चिमः सम्पत्ति सं. 1133-1135 का भाग বিখি: 28.11.2023

सुरक्षित मृल्य, धरोहर

सुरक्षित मूल्य, धरोहर

स्थानः पानीपत, हरियाणा

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी कृते, इंडियन बैंक

ई-नीलामी की तिथि

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 (आईएसओ 9001-2015 प्रमाणित क.) (CIN:L74900DL1984PLC018679) [कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 कॉर्पो. कार्या.: एससीओ 829-830, सेक्टर 22-ए, चंडीगढ़-160022, फोन: 0172-के नियम 30 के अनुपालन में] 5041786, फैक्स: 0172-5041713, ई-मेल: info@paulmerchants.net,

केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र, रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (5) तथा 30 (6) के मामले में

स्मार्ट एनालिस्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 90/31 बी, 1 ला तल, मालवीय नग नई दिल्ली–110017 में है, के मामले में

रतदुद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 29 सितम्बर, 2023 को आयोजित वार्षिक आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने क

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों क उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: 90/31 बी, 1 ला तल, मालवीय नगर,

कृते एवं के लिये, स्मार्ट एनालिस्ट (इंडिया प्राईवेट लिमिटेड तिथि: 01.12.2023 अमनदीप सिंह कलसी (निदेशक

DIN: 08976240

प्रपत्र-3 [विनियम -15(1)(क)]/16(3) देखें ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी-2)

प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़, (तृतीय और चतुर्च तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवटित) वाद सं. ओए/1856/2019 अधिनियम की थारा 19 की उप-थारा (4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली,

1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के तहत सम्मन

डंडियन बैंक बनाम कमलेश..

(1) कमलेश पुत्री /पत्नी /पुत्र बिर्जेदर सिंह, वीपीओ चुलियाना, रोडतक, डरियाणा, रोडतक, डरियाणा (2) श्री मंदीप, वीपीओ चुलियाना रोहतक, हरियाणा, रोहतक, हरियाणा

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रू. 23,62,918/- के ऋण की वसूली के लिए आपके विरूद्ध दाखिल किए

जबिक, ओए/1856/2019 माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्टार के समक्ष **02-09-2023** को प्रस्तत

गए (ओ.ए.) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न) अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को निम्न निर्देश दिया जाता है:-

(i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए; (ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त

सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तृत करें; (iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्याभृत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध मे

संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है; (iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभृति हित सुजित किया गया है तथा / अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण

बिक्री, पटटा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोडकर, न्यायाधिकरण की पूर्व

अनुमति के बिना, नहीं करेंगे; (v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभृत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभृति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेत् जिम्मेदार होंगे।

आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा दिनांक 05/12/2023 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 21/09/2023 को दिया गया।

प्राधिकृत अधिकारी के इस्ताक्षर सम्मन जारी करने हेत्

नई दिल्ली-110017

जॉय टॉवर, सी 20, दूसरी मंजिल, 1/1ए, सी ब्लॉक, फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर 62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201301 आंचलिक कार्यालय प्रधान कार्यालयः लोकमंगल,1501,शिवाजीनगर, पुणे–5

शाखाः मोदीनगर

नबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभूति—हित—का प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत एवं घारा 13(12) सहपठित प्रतिभूहित हित (प्रवर्तन) नेयम 2002 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्न वर्णित दिनांक को मांग सूचना पत्र को जारी किया जिसमें निनवर्णित ऋणी एवं जमानतदार को नोटिस में निम्न वेंणित राज्ञि एवं उस पर देय ब्याजे एवं अनय खर्चो सहित नोटिस प्राप्ति की दिनोंक से 60 दिनों की नमयावधि में भूगतान करने हेत् निर्देशित किया गया था। यह सूचना पत्र रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था। ऋणी द्वारा राशि के भगतान नहीं करने पर ऋणी एवं आमजनता को एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि उपरोक्त कथित एक्ट की धारा 13 (4) सहपठित उक्त कथित नेयम के नियम 8 के अधीन निम्न हस्तक्षरकर्ता ने निम्नवर्णित संपत्तियों का **सोंकेतिक कब्जा** निम्नवर्णित दिनांक को ले लिया गया है। ऋणी एवं जमानतदार को शिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद द्वारा निम्नवर्णित संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई भी व्यवहार निम्न वर्णित राशि के लिए **बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मोदीनगर शाखा** के निर्मित प्रभार के अध्वधीन होगां।

।धारकर्ताओं को एक्ट की धारा 13 एवं एवं उपधारा 8 के प्रावधान के अन्तर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों एवज में उपलब्ध समय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उधारकर्ता एवं जमानतदार बंधक रखी बकाया राशि संपत्ति के विवरण की तिथि का नाम एवं पता 1. 1-मैसर्स गुप्ता जनरल स्टोर, प्रोप- श्री मुकेश | मालिक का नाम 1- श्री विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र 16.06.2021 कुमार गुप्ता, मकान नंबर 107, सुभाष विहार, श्री श्री चंद 12,01,308.00 गली नंबर 1, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, संपत्ति का सान्यिक बंधक संपत्ति स्थित मकान नंबर + ब्याज एवं 107, सुभाष विहार गली नंबर 1, मोदीनगर, जिला-अन्य खर्च

2- श्री विष्णु कुमार गुप्ता, मकान नंबर 107, गाजियाबाद, यूपी-201204, क्षेत्रफल 351.17 16.06.2021 ਚ सुमाष विहार, गली नंबर 1, मोदीनगर, वर्गमीटर, स्वामित्व श्री विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र श्री श्री विश्वि जिला–गाजियाबाद , यूपी–201204 चंद, सीमायें:--उत्तर: चौधरी ब्रम्ह प्रकाश का मकान, 30.11.2023 पूर्वः गली, पश्चिमः महेंद्र क्मार का मकान, दक्षिण प्राधिकृत अधिकारी स्थान- मोदीनगर दिनांक-01.12.2023

Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड कार्पोरेट कार्यालय : "चोला क्रेस्ट", सी 54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032, भारत

सम्पत्ति / सम्पत्तियों का वर्णन

शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 कॉन्टैक्ट नंबर : श्री विनय कुमार गौतम, मोबाइल नंबर 8287233717

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतदद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधकदता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां जिनका सांकेतिक/भौतिक कब्जा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड इसमें आगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड कही जाएगी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। प्रतिभूत आस्तियां "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" तथा "जो भी है वहां हे" आधार पर ई—नीलामी के माध्यम से बेची जाएंगी एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि हम ई—नीलामी का संचालन वेबसाइट https://chola-lap.procure247.com/ के माध्यम से करेंगे।

धारा 13(2) के तहत

।. 1. एच हरि	दृण खाता सं. X0HEDHE00001322287 . संदीप पुरोहित च नंबर ए—395, निकट एसबीआई पालम विहार, गुरूग्राम, रियाणा—122001	05—10—2020 रू. 1,09,03,410.14∕—	ड्यूपलेक्स यूनिट नंबर 395—ए, भू तल, कवर्ड एरिया 1100 वर्ग फीट, जो		निरीक्षण की तिथि
एच	् संतोष पुरोहित च नंबर ए—395, निकट एसबीआई पालम विहार, गुरूग्राम, रियाणा—122001	कब्जा का प्रकार साकतिक	ब्लॉक-ए, आवासीय कालोनी पालम विहार तथा ग्राम चौमा और कार्टरपुरी, तहसील एवं जिला गुरूग्राम में स्थित है।	ন্ড. 1,24,50,000 / — ন্ড. 12,45,000 / — ন্ড. 1,00,000 / —	10-01-2024 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक 09-01-2024 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक भेंट के निर्धारित समय के अनुसार
2. ਪੁਲਜ 2. ਪੁਲਜ ਪੁਲਜ ਪੁਲਜ ਹਰ੍ਹੀ	हण खाता सं. X0HEDHE00001339148 तथा X0HEELD00001743366 अनुराग लित मोहन गॉट नंबर 33, प्रथम तल, नवयुग ब्लॉक, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली—110018 अरूणा शर्मा गॉट नंबर 33, प्रथम तल, नवयुग ब्लॉक, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली—110018 मैसर्स अलाइ इंडिया प्रोडक्ट्स तीय तल, प्लॉट नंबर 6, पंजाबी मार्किट, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली—110018 न—नोटिसेज विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ई—नीलामी	भौतिक	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : ग्राम ख्याला क्षेत्र, कालोनी नवयुग ब्लॉक के नाम से ज्ञात, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली में स्थित खसरा नंबर 35/6 के भाग में 50 वर्ग गज परिमाप की निर्मित सम्पत्ति सं. 33 का प्रथम तल, छत के अधिकार नहीं।	ন্ধ. 35,00,000 / — ন্ধ. 3,50,000 / — ন্ধ. 50,000 / —	10—01—2024 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक 09—01—2024 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक भेंट के निर्धारित समय के अनुसार

(सम्पर्क व्यक्ति : करण मोदी : 70167 16557- karan@procure247.com, अपूर्व पटेल : 91061 96864- apurva@procure247.com, अल्पेश बोरिसा - alpesh@procure247.com 2. ई—नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया https://chola-lap.procure247.com/ एवं https://cholamandalam.com/ auction-notices देखें।

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत बिक्री के संबंध में 30 दिन का कानूनी नोटिस भी है

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड स्थान : दिल्ली, एनसीआर दिनांक : 02–12–2023



खाता संख्या तथा कर्जदार.

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : "चोला क्रेस्ट", सी 54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032, भारत शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 कॉन्टैक्ट नंबर : श्री विनय कुमार गौतम, मोबाइल नंबर 8287233717

सम्पत्ति / सम्पत्तियों

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतदद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधकदता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका सां. केतिक / भौतिक कब्जा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड इसमें आगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड कही जाएगी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। प्रतिभूत आस्तियां "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" तथा "जो भी है वहां हे" आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से बेची जाएंगी। एतदृद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि हम ई-नीलामी का संचालन वेबसाइट https://chola-lap.procure247.com/ के माध्यम से करेंगे।

धारा 13(2) के तहत

77.	सह—कजदार, बंधकदाताओं का नाम	नाग सूचना का तिथि एवं राशि	का वर्णन	वृद्धि राशि (रु. में)	निरीक्षण की तिथि
1.	ऋण खाता सं. X0HEELD00001580724 एवं X0HEELD00002902622 1. विशाल अरोड़ा एच नंबर 1565, द्वितीय तल, निकट दुर्गा भवन, नवीन शाहदरा, नई दिल्ली—110032 अन्य पता : एफ—153—बी, जीएफ, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली—110092 — एम—9810426500 अन्य पता : एच नंबर जी 81, जी —ब्लॉक, न्यू सीलमपुर, नई दिल्ली—110053 2. संतोष अरोड़ा एच नंबर 1565, नया नंबर 1/8545, नवीन शाहदरा, नई दिल्ली—110032 3. सोनिया अरोड़ा एच नंबर 1565, द्वितीय तल, निकट दुर्गा भवन, नवीन शाहदरा, नई दिल्ली—110032 4. किड्स कैम्प इसके एआर /निदेशकों /स्वामियों के माध्यम से एफ—153—बी, जीएफ, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली—110092 5. संतोष अरोड़ा एच नंबर जी 81, जी —ब्लॉक, न्यू सीलमपुर, नई दिल्ली—110053	20—10—2022 रू. 24,72,779 / — कब्जा का प्रकार भौतिक	निर्मित सम्पत्ति सं. 1565, नया नंबर 1/8545 का द्वितीय तल, छत और टेरेस के अधिकार नहीं, परिमाप 65 वर्ग गज, खसरा नंबर 403, स्थित आबादी माकी बिल्डिंग ग्राम उल्धानपुर, नवीन शाहदरा, दिल्ली, जो निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : रोड, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति, उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति, वि	জ. 21,00,000 /— জ. 2,10,000 /— জ. 50,000 /—	22—12—2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक 21—12—2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक भेंट के निर्धारित समयानुसार
2.	ऋण खाता सं. X0HEEDL00001463149) 1. स्व. कुलजीत सिंह (इसके कानूनी वारिस के माध्यम से) (विवरण अज्ञात) (आवेदक) 1/727, पुराना नंबर 19, ब्लॉक—सी, राजा गार्डन, ओल्ड फरीदाबाद, हिरयाणा—121002 अन्य पता: स्व. कुलजीत सिंह (इसके कानूनी वारिस के माध्यम से) (विवरण अज्ञात) (आवेदक) 1/1006, शिव कालोनी, फरीदाबाद, हिरयाणा—121002 2. जसबीर कौर (सह—आवेदक) 1/727, पुराना नंबर 19, ब्लॉक—सी, राजा गार्डन, ओल्ड फरीदाबाद, हिरयाणा—121002 अन्य पता: जसबीर कौर (सह—आवेदक) 1/1006, शिव कालोनी, फरीदाबाद, हिरयाणा—121002	10—03—2023 रू. 41,99,030.44 / — कब्जा का प्रकार सांकेतिक	सम्पत्ति 1 / 727, पुराना नंबर 19, ब्लॉक—सी, क्षेत्रफल परिमाप 100 वर्ग गज, स्थित राजा गार्डन, ओल्ड फरीदाबाद, हरियाणा, सम्पत्ति निम्नानुसार परिबद्ध है : पूरब : प्लॉट नंबर 20, पश्चिम : गलियारा / रास्ता, उत्तर : अन्य सम्पत्ति, दक्षिण : 15 फीट चौड़ी रोड	र्फ. 1,00,000 / ─	22—12—2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक 21—12—2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक भेंट के निर्धारित समयानुसार
3.	ऋण खाता सं. X0HEDHE00000922571 1. राम अवतार चौधरी 10 / 377, लिलता पार्क, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली—110092 2. मालती देवी 10 / 377, लिलता पार्क, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली—110092 3. राज चौधरी 10 / 377, लिलता पार्क, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली—110092	12—06—2021 रू. 26,00,121.47 कब्जा का प्रकार भौतिक	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति सं. 10/377, एल टाइप का सम्पूर्ण प्रथम तल, छत के अधिकार नहीं, परिमाप 37 वर्ग गज, खसरा नंबर 18, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, ग्राम शकरपुर खास, शाहदरा, दिल्ली	ন্ধ. 12,00,000 /— ন্ধ. 1,20,000 /— ন্ধ. 50,000 /—	22—12—2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक 21—12—2023 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक ————————————————————————————————————

प्रातनागियां/ बालादाताला स nttps://choia-iap.procure247.com/ १५ nttps://choiamandaiam.com/auction-notices पर जान का अनुराव है। विस्तृत विवरण, सहायता प्रक्रिया और ई—नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए बोलीदाता सम्पर्क करें (मुहम्मद रहीस — 81240 00030), Ms.procure247; (सम्पर्क व्यक्ति : करण मोदी : 70167 16557— ांतंद / चतवcure247.com, अपूर्व पटेल : 91061 96864- apurva@procure247.com, अल्पेश बोरिसा - alpesh@procure247.com 2. ई—नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया https://chola-lap.procure247.com/ एवं https://cholamandalam.com/auction-

notices देखें।

स्थान : दिल्ली, एनसीआर दिनांक : 02-12-2023

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति वसली शाखा दितीय तल. २- तिलक मार्ग. नेशनल पी जी. कॉलेज के निकट. लखनऊ-226001 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित का प्रवर्तन

अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोंटिस

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि अग्रलिखित ऋणियों जिन्होने अपने ऋण व ब्याज का भगतान नहीं किया है, जिनका ऋण अब एनपीए हो चुका है, को एक नोटिस जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत उनके अंतिम ज्ञात पते पर जारी किया गया था जो कि अवितरित/ लेने से मना किया व वापस कर दिया गया है। इसलिए हम उन ऋणियों को दूसरी बार इस पब्लिक नोटिस द्वारा सूचित करते है कि वे ऋण की रकम को ब्याज व अन्य खर्चे सहित जैसा कि नोटिस में वर्णित है इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान कर दे अन्यथा बैंक सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (4) के अधीन कार्यवाही करने को बाध्य होगा ।

आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 8 के अंतर्गत आकर्षित करते हुये ऋणकर्ता / जमानतकर्ता को सचेत किया जाता है कि आप प्रतिभृति आस्तियों को मोचन कराने हेत् उपलब्ध समय सीमा का अवश्य संज्ञान लें।

ऋणकर्ता/ जमानतकर्ता का नाम एवं पता: 1. श्रीमती सुमन सिंह (कानूनी उत्तराधिकारी और मृतक गारंटर श्री भीम सिंह की पत्नी) पता ।. मम्फोर्डगंज, 51/37, उत्कर्ष विला, बलरामपुर हाउस, नैनी, इलाहाबाद, पिन 211002, पता ॥. 115/160, आशीर्वाद अपार्टमेंट, दरभंगा कॉलोनी, जॉर्ज टाउन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, पिन-211002, पता III. विला-42, ऋषिता मल्बेरी, जीएच-03 पाँकेट 7, सेक्टर-सी, सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ,

2. श्री आश्तोष सिंह (कानुनी उत्तराधिकारी और मृतक गारंटर श्री भीम सिंह के पुत्र), पता i. 115/160, आशीर्वाद अपार्टमेंट दरभंगा कॉलोनी, जॉर्ज टाउन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, पिन-211002 पता ii. 129 सी, डीडीए फ्लैट्स, साहपुरजट, दक्षिणी दिल्ली

3. श्रीमती आकांशा सिंह (कानूनी उत्तराधिकारी और मृतक गारंटर श्री भीम सिंह की बेटी), पता i. मम्फोर्डगंज, 51/37 उत्कर्ष विला, बलरामपुर हाउस, नैनी, इलाहाबाद, पिन 211002 **पता ii.** 115/160, आशीर्वाद अपार्टमेंट, दरभंगा कॉलोनी, जॉर्ज टाउन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, पिन-211002 **पता iii.** विला -42, ऋषिता मल्बेरी, जीएच-03, पॉकेट 7, सेक्टर-सी, सुशांत गोल्फ सिटी,

गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण: अनुसूची ए

सुरक्षित संपत्ति का विवरण जिसके विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है।

ऋषिता मल्बेरी, सेक्टर-सी, जीएच-3, पॉकेट-7, शुशांत गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ में स्थित 4653 वर्ग फुट क्षेत्र में

सीमार्थे:- उत्तर पूर्व- 9 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण पूर्व- विला-41, दक्षिण पश्चिम- विला-49, उत्तर पश्चिम- विला-43

धारा 13 (2) मांग नोटिस के अनुसार बकाया धनराशि : रू 66,36,560.00 दिनांक 04.11.2023 को + ब्याज एवं अन्य खर्चे

स्थान : लखनऊ

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

SBFC

(पूर्व का एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय : युनिट सं. 103, प्रथम तल, सीएण्डबी स्क्वेयर, संगम कॉम्पलेक्स, ग्राम चकला,

अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400059

जबिक यहां नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों ने एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड से वित्तीय सहायता ग्रहण की है। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता ग्रहण करने के बावजुद, कर्जदारों/बंधककर्ताओं ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज और मुलधन के पुनर्भगतान में विभिन्न चूक की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एसबीएफसी की पुस्तकों में यहां नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों पर खाते को गैर-निष्पादन आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''सरफैसी अधिनियम'') के तहत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में यहां नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों पर मांग सुचनाएं जारी की थीं जिसमें कर्जदारों/बंधककर्ताओं से सुचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भगतान की तिथि तक सूचनाओं में उल्लिखित राशि तथा अनुबंधात्मक दर पर भावी ब्याज एवं आकिस्मक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि का भुगतान करने के लिए कहा

उन्हें एतद्वारा सूचना दी जाती है।

तथा ट्रस्ट का नाम			&
1. रमेश कुमार, 2. रेखा देवी, मकान नंबर ए-25,दूसरी मंजिल, मेन मार्केट गढ़ी, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली, दिल्ली-110065। ट्रस्ट का नामः एसबीएफसी एचएल ट्रस्ट जून 2019 1.कुलदीप कुमार, 2. पूजादारजी, आरजेड12डी, गली नं. 4 और 5, बैक साइड इंद्रा पार्क, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-110045 ट्रस्ट का नामः एसबीएफसी एचएल ट्रस्ट जून 2019	वी, नंबर ए-25,दूसरी न मार्केट गढ़ी, ईस्ट लाश, नई दिल्ली, 0065। नामः एसबीएफसी ट जून 2019 कुमार, रजी, डी, गली नं. 4 और इड इंद्रा पार्क, पालम ई दिल्ली-110045 नामः एसबीएफसी	न्न्रण खाता संख्या 19600044703DH (PR00689366) ऋण राशिः रु. 1367688/- बकाया राशिः 7 अक्टूबर 2023 को रु.1461405/- (रुपये चौदह लाख इकसठ हजार चार सौ पांच मात्र) ऋण खाता क्रमांक 19600044394DH (PR00689329) ऋण राशिः रु. 1362112/- बकाया राशिः 19 अक्टूबर 2023 तक रु. 1381685/- (रुपये तेरह लाख इक्यासी हजार छह सौ पिचासी मात्र)	पहली मंजिल वाली संपत्ति का समस्त भाग, छत अधिकार के बिना, संपत्ति संख्या 222/10 के पी निर्मित, भूमि क्षेत्र 50 वर्ग गज, कुल 100 वर्ग गज से, खतौनी संख्या 43/68 का हिस्सा, ग्राम गढ़ी झिर मारिया के क्षेत्र में स्थित है, वर्तमान में अमृत पुगढ़ी, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली के नाम से। पहली मंजिल (सामने/पश्चिमी तरफ) पर बिना छत प्लैट वाले संपत्ति का समस्त भाग, खसरा नंबर 29 भूमि क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, निर्मित संपत्ति गनसीरपुर, कॉलोनी वेस्टसागरपुर, नई दिल्ली, दिल्ली में स्थित।
 राजिंदर कुमार, राहुल आनंद, मंजू, संपत्ति की संख्या 8636, ब्लॉक बी या 67 खसरा नं. 1185, बाघ राव जी, रोहतक रोड, किशन, नई दिल्ली-110080। ट्रस्ट का नाम: एसबीएफसी एलएपी ट्रस्ट जून 2019 	अानंद, 25 अक्टूबर 2023 संख्या 8636, ब्लॉक एनपीए तिथिः बसरा नं. 1185, बाघ तेहतक रोड, किशन, -110080। नाम: एसबीएफसी	ऋण खाता संख्या 13100002050DH (PR00865022) ऋण राशिः रु. 121247/- बकाया राशिः 19 अक्टूबर 2023 को रु.144455/- (रुपये एक लाख चवालीस हजार चार सौ पचपन मात्र)	संपत्ति छत के अधिकार के साथ पूरी तीसरी मंजि का समस्त भाग, फ्रीहोल्ड निर्मित संपत्ति संख्या 863 पर, ब्लॉक बी में या 67 खसरा नं. 118/5, म लगभग 178 वर्ग गज, बाघ राव जी, न्यू रोहतक रोज किशन गंज, नई दिल्ली में स्थित है।

कृपया ध्यान दें कि सरफैसी अधिनियम की धारा 13(13) के तहत कोई भी कर्जदार प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में संदर्भित उसकी

प्रतिभूत आस्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।

ह./- अधिकृत प्राधिकारी एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

www.readwhere.com

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के तहत बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस भी है



ई—नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी

स्थान : नई दिल्ली

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra एक परिवार एक बैंक

आधिपत्य सूचना (स्थावर संपत्ति) नियम-8(1)

मांग सूचना

पिन-110049 पता iii. विला -42, ऋषिता मल्बेरी, जीएच-03, पॉकेट 7, सेक्टर-सी, सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ

निर्मित किये जा रहे विला/यूनिट नंबर-42 के सभी भाग और हिस्से। क्षेत्रफल-3228.447 वर्ग फुट (कार्पेट एरिया)

एनपीए की तिथि/मांग नोटिस की तिथि: 03-10-2023/08-11-2023

दिनाँक: 01,12,2023

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

उनके अन्तिम ज्ञात पतों पर भेजी गयी ये सूचनाएं अन-सर्व्ड वापस कर दी गयीं और इसलिए इसके विषय में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से कर्जदार का नाम/पता ऋण तथा बकाया राशि प्रतिभृत आस्तियों का विवरण

उपर्युक्त परिस्थितियों में, एतद्वारा उपर्युक्त कर्जदारों, सह-कर्जदारों द्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भावी ब्याज एवं प्रयोज्य प्रभारों सहित उपर्युक्त बकाया राशि अदा करने की सूचना दी जाती है जिसमें असफल रहने पर इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के पश्चात सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) एवं उसके तहत प्रयोज्य नियमों के तहत कर्जदारों एवं बंधककर्ताओं की प्रतिभृत आस्तियों पर कब्जा लेने सहित प्रतिभृत आस्तियों के विरुद्ध भावी कार्यवाही

तिथि : 02 दिसम्बर, 2023